

फा.सं. 3-6/2019-नी. एवं यो. -1 (खंड.1)

कर्मचारी चयन आयोग

महत्वपूर्ण सूचना

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा (सीएचएसएलई) 2019 के शेष अभ्यर्थियों के लिए

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने की वजह से, आयोग निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सका:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	मूल कार्यक्रम
i)	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा, 2019 (टियर- I)	20-03-20 से 28-03-20
ii)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019 (पेपर- I)	30-03-20 से 02-04-20
iii)	आशुलिपिक ग्रेड 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2019	05-05-20 से 07-05-20 तक
iv)	चयन पद (चरण- VIII) परीक्षा, 2020	10-06-20 से 12-06-20
v)	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2019 (टियर- II)	22-06-20 से 25-06-20

2. आयोग ने दिनांक 21-07-2020 के नोटिस संख्या: 01/02/2020-गो-II (भाग) के तहत इन परीक्षाओं को अक्तूबर और नवंबर, 2020 माह में पुनः निर्धारित किया है।

3. आयोग को उपर्युक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को उपरोक्त संदर्भित परीक्षाओं के केंद्र को बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जो कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण आयोजित नहीं की जा सकती थीं।

4. सर्वप्रथम, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2019 के शेष अभ्यर्थी, दिनांक 18-09-2020 से 20-09-2020 तक आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर अपने 'पंजीकरण संख्या और पासवर्ड' के माध्यम से लॉगिन करके अपने परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प 'Latest Notification' टैब के तहत 'Candidates' Dashboard में दिनांक 18-09-2020 से उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्र परिवर्तित करने के लिए डैशबोर्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें।

5. पैरा -1 में सूचीबद्ध शेष परीक्षाओं के लिए भी ऐसे प्रावधान की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

अवर सचिव (नी. एवं. यो.-I)

16-09-2020